



भारत का राजपत्र The Gazette of India असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 117]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 21, 2011/माघ 1, 1932

No. 117]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 21, 2011/MAGHA 1, 1932

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2011

का.आ. 146(अ).—केन्द्र सरकार राजधानी ऑयल्स एंड ऑयलसीड्स एक्सचेंज लि., दिल्ली द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिए अग्रिम सविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अंतर्गत दिए गए आवेदन-पत्र पर, वायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोकहित में भी होगा, एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्सचेंज को 1 मार्च, 2011 से 31 मार्च, 2012 (दोनों दिन सम्मिलित) तक की अवधि के लिए रैपसीड/सरसों में अग्रिम सविदाओं के संबंध में मान्यता का नवीकरण करती है।

2. इसके द्वारा प्रदत्त नवीनीकरण की मान्यता इस शर्त के अधीन है कि उक्त एक्सचेंज वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करेगी।

[फा. सं. 12/9/2001-आई टी]

केवल राम, वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND
PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st January, 2011

S.O. 146(E).—The Central Government, having considered in consultation with the application for renewal of recognition, made under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), by the Rajdhani Oils and Oilseeds Exchange Ltd., Delhi and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said Act, renewal of the said Exchange for a further period from 1st March, 2011 to 31st March, 2012 (both days inclusive) in respect of forward contracts in Rapeseed/Mustardseed.

2. The renewal hereby granted is subject to the condition that the said Exchange shall comply with such directions as may, from time to time be given by the Forward Markets Commission.

[F.No. 12/9/2001-IT]

KEWAL RAM, Senior Economic Adviser